

## **ऑनलाइन काउंसलिंग के चरण और निर्देश**

1- सबसे पहले कॉलेज की वेबसाइट के एडमिशन पोर्टल <https://www.cmpadmission.cmpcollege.ac.in/> पर जाकर अभ्यर्थी को अपना 'यूजीएटी नंबर' और जन्म तिथि डालकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपना पासवर्ड बनाना होगा।

2- रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी को अपने यूजीएटी नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा।

3- अब यदि अभ्यर्थी उस दिन की मेरिट में होगा अर्थात कटऑफ से अधिक उसके अंक होंगे तो 'रजिस्टर फॉर टूडैज काउंसलिंग' का बटन दिखाई पड़ेगा जिस पर क्लिक करके उसे काउंसलिंग फॉर्म भरके निर्धारित काउंसलिंग फीस जमा करनी होगी। यह प्रक्रिया अभ्यर्थी ऑनलाइन सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच कभी भी कर सकता है।

4- इसके बाद अभ्यर्थी को 'इंटर/अपडेट च्वाइस' बटन पर क्लिक करके अपने शैक्षिक योग्यता का विवरण और उसके सत्यापन के लिए अभिलेखों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। अभिलेख जेपीजी/पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किए जा सकते हैं और उनकी अधिकतम साइज़ 1 एमबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यदि उसके विषयों की कोई च्वाइस हो तो उसे सेलेक्ट करना होगा।

5- इसके बाद अभ्यर्थी को 'सेव/सेव एण्ड लॉक' बटन दिखाई देगा। यदि अभ्यर्थी सेव बटन पर क्लिक करता है तो विषय की च्वाइस बदलने का विकल्प उसके पास तब तक होगा जब तक उस दिन की काउंसलिंग प्रक्रिया अपने आप लॉक नहीं हो जाती। यदि वह सेव एण्ड लॉक पर क्लिक करता है तो उसे उसका फाइनल च्वाइस माना जाएगा।

6- अब उसी दिन अभ्यर्थी को दोपहर 2 बजे के बाद लॉग इन करके यह देखना होगा कि उसे प्रोविजनल सीट का आबंटन हुआ है या नहीं। यदि अभ्यर्थी को सीट आबंटित हुई है तो उसे उस दिन रात 12 बजे तक अपनी फीस ऑनलाइन जमा करके प्रोविजनल एडमिशन लेना होगा अन्यथा उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी को सीट आबंटित नहीं होती है तो उसे उसी लॉग इन से पुनः दूसरे दिन इसी प्रकार ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेना होगा।

**नोट:** ऑनलाइन काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया कैसलेश है यदि कोई अभ्यर्थी किसी तकनीकी कारण से काउंसलिंग के दिन ऑनलाइन फीस जमा नहीं कर पाता है तो प्राचार्य के निर्देश के अनुसार उसे अगले दिन अधिकतम दोपहर 12 बजे तक कॉलेज ऑफिस में उपलब्ध 'पीओएस पॉइंट' पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से फीस जमा करने की सुविधा भी दी जा सकती है।